

चैतन्य केन्द्र प्रेक्षा

प्रो. (डॉ.) सोहन राज तातेड़

पूर्व कुलपति, सिंघानिया विश्वविद्यालय, राजस्थान

मानव शरीर में शक्ति के अनेक केन्द्र हैं। उन केन्द्रों को जागृत करना ध्यान के द्वारा सम्भव है। जन्म से मृत्यु तक की प्रक्रिया को राग-द्वेष मुक्त होकर देखना चाहिए। समता भाव में रहना मानव जीवन का उद्देश्य है। जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको यह संसार भी वैसा ही दिखलाई देता है। अनुकूलता प्रतिकूलता जीवनभर लगी रहती है। इससे पृथक होकर ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना चाहिए। अपने को शुद्ध आत्मा मानना चाहिए। आत्मा और शरीर को भेद विज्ञान की दृष्टि से देखना चाहिए। इसके लिए चैतन्य केन्द्र प्रेक्षा आवश्यक है। चैतन्य केन्द्रों पर ध्यान करने से जीवन में रूपान्तरण आ जाता है और समस्याओं का समाधान मिल जाता है।

इस संसार में दो तत्व हैं जड़ और चेतन। जड़ पदार्थ निष्क्रिय होता है और चेतन पदार्थ सक्रिय। मानव का शरीर जड़ है और आत्मा चेतन। जड़ और चेतन के सहयोग से यह शरीर संचालित हो रहा है। शरीर में आत्मा सघन रूप से रहती है। आत्मा शरीर व्यापी है। प्रेक्षा के द्वारा चैतन्य केन्द्रों का सक्रिय किया जाता है। प्रेक्षा का तात्पर्य है राग-द्वेष रहित होकर के देखना। जब प्रतिक्रिया-विरति होकर देखा जाता है तो भेदविज्ञान का दर्शन होता है। केन्द्रों पर रंग के साथ ध्यान करना चाहिए। चैतन्य केन्द्र की चर्चा अवधिज्ञान से जुड़ी है। यद्यपि अवधिज्ञान की क्षमता सभी आत्मप्रदेशों में प्रकट होती है फिर भी शरीर को जो देशकरण बनता है, उसी के माध्यम से अवधिज्ञान प्रकट होता है।

चैतन्य केन्द्र अनेक संस्थान वाले होते हैं। इन्द्रियों का संस्थान प्रतिनियत होता है। किन्तु चैतन्य केन्द्रों का संस्थान प्रतिनियत नहीं होता। चैतन्य केन्द्र शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। नाभि के नीचे होने वाले चैतन्य केन्द्रों के संस्थान अशुभ होते हैं। शुभ संस्थान वाले चैतन्य केन्द्र नीचे के भाग में नहीं होते हैं। हमारे शरीर में अनेक चैतन्य केन्द्र हैं। शक्ति केन्द्र पृष्ठरज्जु के नीचे की ओर है। स्वास्थ्य केन्द्र पेड़ू का निचला भाग है। तैजस केन्द्र नाभि का

भाग है। आनन्द केन्द्र हृदय के पास स्थित है। विशुद्धि केन्द्र कंठ के मध्य में स्थित है। ब्रह्म केन्द्र जिह्वा का अग्र भाग है।

प्राण केन्द्र नासाग्र है। चाक्षुस केन्द्र आंखों के भीतर है। अप्रमाद केन्द्र कानों के भीतर है। दर्शन केन्द्र भुकुटियों के मध्य स्थित है। ज्योति केन्द्र ललाट के मध्य स्थित है। शांति केन्द्र मस्तिष्क का अग्र भाग है। ज्ञान केन्द्र मस्तिष्क के ऊपर का चोटी का स्थान है। चैतन्य केन्द्रों पर ध्यान करने से निर्मलता आती है। शक्ति केन्द्र की निर्मलता से वाकसिद्धि, स्वास्थ्य केन्द्र की निर्मलता से अचेतन मन पर नियंत्रण तैजस केन्द्र के निर्मल होने पर तैजस केन्द्र के निर्मल होने से क्रोध आदि वृत्तियों से साक्षात्कार की क्षमता पैदा होती है। आनन्द केन्द्र की निर्मलता से बुढ़ापे की व्यथा को कम किया जा सकता है। विशुद्धि केन्द्र की सक्रियता से वृत्तियों के परिष्कार की क्षमता पैदा होती है। ब्रह्म केन्द्र की निर्मलता द्वारा काम वृत्ति पर नियंत्रण होता है।

प्राण केन्द्र की निर्मलता द्वारा निर्विचार अवस्था प्राप्त होती है। चाक्षुस केन्द्र की साधना के द्वारा एकाग्रता बढ़ती है। दर्शन केन्द्र की प्रेक्षा के द्वारा अन्तर्दृष्टि का विकास होता है। ज्योति केन्द्र की साधना से क्रोध को शांत किया जा सकता है। शांति केन्द्र की साधना से भाव संस्थान पवित्र बनता है। ज्ञान केन्द्र की साधना से अन्तर्ज्ञान को विकसित किया जाता है। भारत के सभी संप्रदायों के ऋषि-महर्षियों ने शरीरस्थ शक्ति-केन्द्रों, चक्रों, कमलों तथा चैतन्य-केन्द्रों की खोज अपने-अपने ढंग से की है। तंत्र शास्त्र और हठयोग में चक्रों का निरूपण है। जैन परंपरा में ध्यान की पद्धति का लोप हो जाने के कारण जैन साहित्य में उपलब्ध चक्रों की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

प्रेक्षाध्यान के संदर्भ में चैतन्य केन्द्र की चर्चा है प्रत्येक मनुष्य में विवेक चेतना अन्तर्निहित होती है। इसका जागरण तब तक नहीं होता, जब तक मनुष्य अपने चेतन मन के द्वारा केवल बुद्धि और तर्क के आधार पर ही अपनी वृत्तियों की मांग पर विमर्श करता है। वस्तुतः उसकी बौद्धिक और तार्किक-शक्ति पर वृत्तियां इतनी अधिक हावी हो जाती है कि वह उनकी मांग के औचित्य-अनौचित्य का सही निर्णय करने में सक्षम नहीं होता। वृत्तियों के आवेगात्मक बलों

के उद्दीपन या शमन करने की मूलभूत चाबी है—अन्तःस्रावी ग्रंथियां। इसलिये ये ही चैतन्य केन्द्रों के संवादी केन्द्र होते हैं।

जब हम चैतन्य केन्द्रों की प्रेक्षा करते हैं, तब विद्युत् की धारा, प्राण की धारा, वहां इतनी तेज हो जाती है कि जमा हुआ मैल साफ हो जाता है और वह विद्युत—चुम्बकीय क्षेत्र शुद्ध बन जाता है, निर्मलता आ जाती है और उस निर्मलता में से चैतन्य अभिव्यक्त हो जाता है, बाहर प्रकट होने लगता है। चैतन्य केन्द्रों की प्रेक्षा से और अधिक प्राणधारा वहां इकट्ठी होती है और वे अधिक निर्मल बन जाते हैं। चैतन्य केन्द्र प्रेक्षा का महत्वपूर्ण परिणाम है— चैतन्य केन्द्रों की निर्मलता। हम चैतन्य केन्द्रों की प्रेक्षा करें। हम इस सच्चाई को जान लें कि चित्त को अधिक—से—अधिक हृदय से ऊपर, सिर तक रखना लाभदायक होता है।